

प्रेस नोट

दिनांक 02.06.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

चोरी की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.06.2022 को उ0नि0 जिलेदार यादव मय हमराह थाना संग्रामपुर द्वारा देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्त 1.जय प्रकाश मिश्रा पुत्र उदय प्रकाश नि0 ग्राम फूला का पुरवा मजरे उत्तर गांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी, 2.मनोज कुमार पुत्र राम अभिलाख नि0 ग्राम बलहरी मजेर उत्तर गांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को गड़ेरियन का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त जय प्रकाश के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद पुरानी पिलास व अभियुक्त मनोज कुमार के कब्जे से एक झोले से छोटे-बड़े 04 अदद पेंचकश, 01 अदद लोहे की हथौड़ी, 03 अदद चाबी का गुच्छा(कुल 14 चाबियां), 01 अदद लोहे की सरिया आला नकब आदि बरामद हुआ । पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग सरकारी स्कूलों में जो इन दिनों बंद चल रहे हैं उनके दरवाजे के ताले को तोड़/खोल कर विद्यालय के अन्दर रखे सामान को गायब कर देते हैं। थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जय प्रकाश मिश्रा पुत्र उदय प्रकाश नि0 ग्राम फूला का पुरवा मजरे उत्तर गांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. मनोज कुमार पुत्र राम अभिलाख नि0 ग्राम बलहरी मजेर उत्तर गांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद पुरानी पिलास
2. छोटे-बड़े 04 अदद पेंचकश, 01 अदद लोहे की हथौड़ी
3. 03 अदद चाबी का गुच्छा(कुल 14 चाबियां), 01 अदद लोहे की सरिया आला नकब आदि ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 104/22 धारा 401 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 105/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जिलेदार यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 शेष बहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 राज बहादुर साहनी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।